

## **Electronics & Information Technology Department**

### **इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना तकनीकी विभाग**

**Our Ref:** LITD12/G-25 & LITD 12/G-1

संदर्भ: एलआईटीडी12/जी-25 एवं एलआईटीडी12/जी-1

14-05-2018

**Subject:** Reaffirmation of Indian Standards by LITD 12

विषय: अनुभागीय समिति एलआईटीडी 12 से संबंधित मानको का पुनः पुष्टिकरण

The Indian Standards enclosed as Annex have been reaffirmed by Transmitting Equipment for Radio Communication Sectional Committee, LITD 12 from their due dates for a further period of three years.

संलग्नक में दिए गए भारतीय मानको का रेडियो संचार के लिए प्रसारित उपस्कर विषय समिति, एलआईटीडी 12 के द्वारा उनकी पुनः पुष्टिकरण तिथि से, आगामी तीन वर्षों के लिए पुनः पुष्टिकरण किया गया है :

Director (Sales)/Director (Library)/ (publication) may please take necessary action for affixing the year of reaffirmation to these Indian Standards.

निदेशक (बिक्री)/निदेशक (पीयूबी)/निदेशक (एलएससी) से अनुरोध है कि वे उपरोक्त भारतीय मानको पर पुनः पुष्टि के वर्ष की स्थापना के लिए उचित कार्यवाही करें।

ITSD is requested to upload the information on BIS intranet.

आईटीएस विभाग को बीआईएस पर अपलोड करने के लिए अनुरोध के साथ I

(रीना गर्ग)

प्रमुख (इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना तकनीकी)

निदेशक (बिक्री)

निदेशक (पीयूबी)

निदेशक (एलएससी)

All ROs/BOs/Depts of BIS – For information please

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सभी शाखा कार्यालयों, सभी उप-शाखा कार्यालयों, मुख्यालय में सभी तकनीकी विभागों एवं सभी प्रयोगशालाओं को परिचालित

## ANNEX

Sl. No	IS NO.	Title	Date of Reaffirmation
1.	IS 1885 ( Part 18 ) : 1967	Electrotechnical vocabulary Part 18 General terms of radio-communications	January 2018
2.	IS 1885 ( Part 19 ) : 1967	Electrotechnical vocabulary Part 19 Radio communication circuits	January 2018
3.	IS 1885 ( Part 20 ) : 1967	Electrotechnical vocabulary Part 20 Radio-wave propagation	January 2018
4.	IS 1885 ( Part 23 ) : 1967	Electrotechnical vocabulary Part 23 Radio telegraphy and mobile radio	January 2018
5.	IS 1885 ( Part 25 ) : 1967	Electrotechnical vocabulary Part 25 Radiolocation and radio navigation	January 2018
6.	IS 1885 ( Part 21 / Sec 1 to 6 ) : 1988	Electrotechnical Vocabulary - Part 21 Antennas	January 2018
7.	IS 1885 ( Part 65 / Sec 1 to 5 ) : 1988	Electrotechnical vocabulary Part 65 Transmission	January 2018
8.	IS 1885 ( Part 66 ) : 1988	Electrotechnical vocabulary Part 66 Space radio communications	January 2018
9.	IS 1885 ( Part 82 ) : 1996 IEC 60050(716)	Electrotechnical Vocabulary - Part 82 Integrated Services Digital Networks ISDN	January 2018
10.	IS 2032 ( Part 16 ) : 1972	Graphical symbols used in electrotechnology Part 16 Aerials	January 2018
11.	IS 9018 : 1978	General requirements and tests for quartz crystal oscillators	January 2018
12.	IS 10437 : 1986	Safety requirements for radio transmitting equipment	January 2018
13.	IS 10485 : 1983	Code of Practice For The Installation Of Single And Community Antenna Systems For The Reception Of Sound And Television Broadcasting	January 2018

14.	IS 10820 ( Part 1 ) : 1984	Methods of measurement for radio equipment used in mobile services Part 1 General definitions and conditions of measurement	January 2018
15.	IS 10820 ( Part 2 ) : 1996	Methods of measurement for radio equipment used in the mobile services Part 2 Transmitters employing A3E F3E or G3E emissions	January 2018
16.	IS 10820 ( Part 5 ) : 1992 IEC 60489-5	Methods of measurement for radio equipment used in the mobile services Part 5 Receivers employing single side-band techniques R3E H3E OR J3E	January 2018
17.	IS 10820 ( Part 6 ) : 2015 IEC 60489-6	Methods of Measurement for Radio Equipment Used in the Mobile Services Part 6 Selective Calling and Data Equipment First Revision	March 2018
18.	IS 10853 ( Part 1 ) : 1984	Methods of measurement for radio transmitters Part 1 General conditions of measurement	January 2018
19.	IS 10853 ( Part 2 ) : 1984	Methods of measurement for radio transmitters Part 2 Frequency	January 2018
20.	IS 10853 ( Part 3 ) : 1984	Methods of measurement for radio transmitters Part 3 Output power and power consumption	January 2018
21.	IS 10853 ( Part 4 ) : 1994 IEC 60244-13	Methods of measurement for Radio Transmitters Part 4 Performance characteristics for FM sound Broadcasting	January 2018
22.	IS 13409 : 1992	High frequency Trans receivers	January 2018